

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 1968/पौज 20, 1889

No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 1968/PAUSA 20, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January 1968

G.S.R. 93.—The following Proclamation made by the President of India is published for general information:—

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of article 352 of the Constitution, I, Zakir Husain, President of India, hereby revoke the Proclamation of Emergency issued under clause (1) of that article on the 26th October, 1962, and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 1415, dated the 26th October, 1962, at page 544 of the Gazette of India, Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 26th October, 1962.

New Delhi, the 10th January, 1968.

ZAKIR HUSAIN,
President.

[No. F. 43/39/67-Poll-I(B).]

L. P. SINGH, Secy.

(1)

